

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा मर्चेट्स चैम्बर के पूर्व चीफ पैट्रन स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंहानिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जायेगी, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, Lifestyle management & Corporate Wellness Workshop तथा भूले-बिसरे गीत का आयोजन प्रमुख है।

उक्त समस्त कार्यक्रमों को विस्तार से बताने के लिए आज दिनांक **08 जून, 2018 को समय 02:30 बजे** मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस-वार्ता का आयोजन किया गया।

आयोजित प्रेस-वार्ता में निम्नलिखित बिन्दुओं को सूचित किया गया :

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा “निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर” के आयोजन के सम्बन्ध में बताया गया कि:

- निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन दिनांक **10 जून, 2018** को समय प्रातः **09:00 बजे से 01:00 बजे** तक सर पदमपत सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर, में किया जाएगा।
- दिनांक **11 जून, 2018** को समय सायं **04:00 बजे से सायं 06:00 बजे** सर पदमपत सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर में Lifestyle management & Corporate Wellness Workshop का आयोजन किया जाएगा। उक्त सत्र को मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की “हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कमिटी” तथा जे.के. सीमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों को विस्तार से समझाने के लिए डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन से डॉक्टर उपस्थित रहेंगे :

“सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति व दुर्बलता से ही शरीर स्वस्थ हो और विकास हो यह आवश्यक नहीं है बल्कि स्वस्थ शरीर के साथ-साथ पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की भावना रखकर परिवर्तन और विकास की राह पर गतिशीलता से आगे बढ़ते रहना विकास की सतत प्रक्रिया है....” उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य “पेशेवर जीवन में सफल होना, समस्त व्यक्ति विशेष में स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होना, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में साम्य स्थापित करना, तथा सफलता का अन्य (किसी संस्थान से जुड़ा मध्य, या निचले प्रबंधन का कर्मचारी या परिवेश से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो सकता है) के लिए सार्थक होना” आदि विषयों के बारे में उत्प्रेरक बताएं बतायी जाएँगी। इस तरह का उत्प्रेरक सत्र भविष्य में भी आयोजित किया जाता रहेगा। आयोजित किये जाने वाले सत्र का मिनट-टू-मिनट प्रोग्राम व सर्कुलर संलग्न (वर्ड फाइल) है, कृपया प्राप्त करें।

- इसी क्रम में दिनांक **12 जून, 2018** समय सायं **06:30 बजे** से सर पदमपत सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर में “भूले-बिसरे गीत” का आयोजन किया जाएगा। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दशकों पहले प्रचलित लोक गीत संगीत कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

विदित है कि गत कई दशकों से कानपुर शहर में सिंहानिया परिवार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान दिया गया है, वह अतुलनीय है। इसी तारतम्य में शहर के निवासियों विशेषकर आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के मरीजों को शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक परीक्षण, परामर्श व दवा-वितरण का लाभ लेने हेतु मर्चेट्स चैम्बर द्वारा उपरोक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में शहर के कुशल व प्रतिष्ठित चिकित्सक व चिकित्सा सेवा संस्थान अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो कि निःशुल्क होगा।

आयोजित किये जाने वाले शिविर की निश्चित समयावधि में अनुमानतः 700 से अधिक मरीजों को परामर्श एवं परीक्षण की क्षमतानुसार तैयार किया गया है।

शिविर में निशुल्क परामर्श, ई.सी.जी., व् पैप स्मीयर परीक्षण निशुल्क किये जायेंगे।

इस शिविर में निम्नलिखित चिकित्सक उपस्थित रहेंगे:

अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. ए.एस. प्रसाद एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स, **नेत्र रोग विशेषज्ञ** डॉ. अवध दुबे व् डॉ. गौरव दुबे
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधु लूम्बा, डॉ. नीता चौधरी, डॉ. रश्मि सहाय, डॉ. आकांछा लूम्बा, **पैप स्मीयर परीक्षण** हेतु
परीक्षण व् परामर्श के लिए डॉ. अल्का शर्मा व् उनके सहयोगी डॉक्टर्स, **मधुमेह** के लिए डॉ. नंदिनी रस्तोगी, **हृदय रोग**
विशेषज्ञ डॉ. आर.पी.एस. भारद्वाज एवं उनके सहयोगी डॉक्टर्स, **साधारण रोग विशेषज्ञ** डॉ. आर.के. लूम्बा, डॉ. प्रशांत
सिंह, **चेस्ट रोग विशेषज्ञ** डॉ. एस.के. कटियार, डॉ. सुधीर चौधरी, **बाल रोग विशेषज्ञ** डॉ. सविता रस्तोगी,
नाक कान गला (E.N.T.) रोग विशेषज्ञ डॉ. संगीता सेंगर, **रेडियोलोजिस्ट** डॉ. वी.सी. रस्तोगी तथा डॉक्टर्स की
सलाहनुसार चिकित्सकीय परीक्षण के लिए **पैथोलॉजिस्ट डॉ. उमेश पालीवाल** उपस्थित रहेंगे।

इस प्रेस वार्ता में **मर्चेट्स चैम्बर** के अध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष श्री बी.एम.गर्ग, डॉ. आई.एम.
रोहतगी, डॉ. अवध दुबे, डॉ. ए.एस. प्रसाद, श्री अनिल अग्रवाल, डॉ. प्रशांत सिंह उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश